



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 माघ 1934 (श0)
(सं0 पटना 112) पटना, शुक्रवार, 8 फरवरी 2013

विधि विभाग

अधिसूचना

7 फरवरी 2013

सं0 सी0/एल0ए0-9/2007/959/जे0—विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा-6 की उप-धारा 2(बी) (अध्याय-III) के अधीन प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष के स्थानान्तरण के फलस्वरूप, बिहार के राज्यपाल माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती टी0 मीना कुमारी, उच्च न्यायलय, पटना को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 112-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>